



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 4—फरवरी 10, 2012 (माघ 15, 1933)

No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 4—FEBRUARY 10, 2012 (MAGHA 15, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4

### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by  
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई-400001, दिनांक 9 जनवरी 2012

बैंपवि सं. आईबीडी.10184/23.13.139/2011-12--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके एतद्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से निम्नलिखित बैंक को सम्मिलित किये जाने का निदेश देता है :

“वूरी बैंक”

बी. महापात्रा  
कार्यपालक निदेशक

दिनांक 9 जनवरी 2012

बैंपवि सं. आईबीडी.10193/23.13.085/2011-12--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके एतद्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से निम्नलिखित बैंक को सम्मिलित किये जाने का निदेश देता है :

“नेशनल आस्ट्रेलिया बैंक”

बी. महापात्रा  
कार्यपालक निदेशक

## दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 2 जनवरी 2012

सं. 13-सी.ए. (परीक्षा)/मई, 2012--चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के रेगुलेशन, 22 के अनुसार, दि काउंसिल ऑफ दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि वृत्तिक सक्षमता परीक्षा (पी.सी.ई.) एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा (आई.पी.सी.ई.) और फाइनल की परीक्षाएँ निम्नलिखित तिथियों तथा केन्द्रों पर होगी, बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं।

उसी प्रकार चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन, 1988 के अनुसूची 'जी' के अनुसार पोस्ट क्वालिफिकेशन पाठ्यक्रम, इन्स्युरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेंट (आई.आर.एम.) की परीक्षाएँ भी निम्नलिखित तिथियों तथा केन्द्रों (केवल भारत स्थित केन्द्रों) पर होगी, बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा में पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं।

वृत्तिक सक्षमता परीक्षा (पी.सी.ई.) :--

(पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन, 1988 के रेगुलेशन 28-सी (3) के अन्तर्गत है, के अनुसार)

ग्रुप-I	3, 5, और 14 मई, 2012
ग्रुप-II	8, 10 और 16 मई, 2012

(परीक्षा का समय :--दोपहर 2.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक) (भारतीय समयानुसार)

एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा (आई.पी.सी.ई.) :--

(पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन, 1988 के रेगुलेशन 28-ई (3) के अन्तर्गत है, के अनुसार)

ग्रुप-I	3, 5, 8 और 10 मई, 2012
ग्रुप-II	12, 14 और 16 मई, 2012

(परीक्षा का समय :--दोपहर 2.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक) (भारतीय समयानुसार)

फाइनल परीक्षा :-- (पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के रेगुलेशन 31 (ii) के अन्तर्गत है, के अनुसार)

ग्रुप-I	2, 4, 7 और 9 मई, 2012
ग्रुप-II	11, 13, 15 और 17 मई, 2012

(परीक्षा का समय :--दोपहर 2.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक) (भारतीय समयानुसार)

इन्स्युरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेंट (आई.आर.एम.) परीक्षा :--

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन, 1988 की "अनुसूची जी" के अन्तर्गत)

माड्यूल 1 से 4	11, 13, 15 और 17 मई, 2012
----------------	---------------------------

(परीक्षा का समय :--दोपहर 2.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक) (भारतीय समयानुसार)

परीक्षा केन्द्र :--

(1) (भारत में स्थित परीक्षा केन्द्र :-- (सभी परीक्षाओं के लिये)

1. आगरा	35. देहरादून	69. कोटययम	103. रोहतक
2. अहमदाबाद	36. दिल्ली/नई दिल्ली	70. कोशीखोड़	104. राउरकेला
3. अहमदनगर	37. धनबाद	71. कुंभाकोनम	105. सहारनपुर
4. अजमेर	38. दुर्ग	72. लातूर	106. सलेम
5. अकोला	39. ईरनाकुलम	73. लखनऊ	107. सम्बलपुर
6. अलापुजा	40. ईरोड	74. लुधियाना	108. सांगली
7. अलीगढ़	41. फरीदाबाद	75. मदुरई	109. सतारा
8. इलाहाबाद	42. गाँधीधाम	76. मंगलोर	110. शिमला
9. अलवर	43. गाजियाबाद	77. मथुरा	111. सीकर
10. अम्बाला	44. गोवा	78. मेरठ	112. सिलीगुड़ी
11. अमरावती	45. गोरखपुर	79. मुरादाबाद	113. सिरसा
12. अमृतसर	46. गुन्डूर	80. मुम्बई	114. सोलापुर
13. आनन्द	47. गुडगांव	81. मुजफ्फरनगर	115. सोनीपत
14. आसनसोल	48. गुवाहाटी	82. मैसूर	116. श्री गंगानगर
15. औरंगाबाद	49. ग्वालियर	83. नागपुर	117. सूरत
16. बंगलोर	50. हिसार	84. नांदेड	118. थाने
17. बरेली	51. हुबली	85. नासिक	119. तिरुवनन्तपुरम
18. भटिण्डा	52. हैदराबाद	86. नैल्लोर	120. श्रीसूर
19. ब्यावर	53. इंदौर	87. नोएडा	121. तिनसुकिया
20. बेलगांव	54. जबलपुर	88. पालघाट	122. तिरुचीरापल्ली
21. बेल्लारी	55. जयपुर	89. पाली मारवार	123. तिरुपति
22. बेरहमपुर	56. जालन्धर	90. पानीपत	124. तिरुपुर
23. भरूच	57. जलगांव	91. पनवेल	125. टूटीकोरन
24. भावनगर	58. जम्मू	92. पटना	126. उदयपुर
25. भीलवाड़ा	59. जामनगर	93. पटियाला	127. उडुपी
26. भोपाल	60. जमशेदपुर	94. पिम्परी-चिंचवाड़	128. उज्जैन
27. भुवनेश्वर	61. जोधपुर	95. पांडेचेरी	129. वडोदरा
28. भुज	62. कानपुर	96. पूणे	130. वापी
29. बीकानेर	63. करनाल	97. रायपुर	131. वाराणसी
30. बिलासपुर	64. किशनगढ़*	98. राजामुंद्री	132. वेल्लौर
31. चंडीगढ़	65. कोल्लम	99. राजकोट	133. विजयवाड़ा
32. चेन्नई	66. कोल्हापुर	100. रांची	134. विशाखापटनम
33. कोयम्बटूर	67. कोलकाता	101. रतलाम	135. यमुना नगर
34. कटक	68. कोय	102. रेवाड़ी	

\*बशर्ते की सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान कि जाये।

(2) विदेशों में स्थित परीक्षा केन्द्र :--[केवल वृत्तिक सक्षमता परीक्षा (पी.सी.ई.) एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा (आई.पी.सी.ई.) एवं फाइनल परीक्षाओं के लिये ]

01. दुबई 02. काठमांडू 03. आबुधाबी 04. मस्कट\*

\*बशर्ते की सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान कि जाये।

परीक्षा शुल्क की राशि किसी भी सूचीकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा "सचिव" दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्स ऑफ इण्डिया के पक्ष में होनी चाहिए और उसकी अदायगी नई दिल्ली पर हो।

परिषद् अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी भी परीक्षा केन्द्र को किसी भी समय बिना कोई कारण दिये रद्द कर सकती है।

इन परीक्षाओं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र <http://icaiaexam.icaai.org> पर मुफ्त भर सकते हैं। (अर्थात् अगर आवेदन पत्र ऑनलाईन भरे गये हो तो 500/- रु. आवेदन पत्र शुल्क नहीं लिया जायेगा) अन्यथा निर्देशित फार्म पर जिसकी कॉपी अगर सचिव (परीक्षा) दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्स ऑफ इण्डिया इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110002 से 500/- शुल्क के साथ वृत्तिक सक्षमता: परीक्षा एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा एवं फाइनल परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन्स्युरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेंट परीक्षा के लिये आवेदन पत्र 100/- रु. प्रति आवेदन पत्र भुगतान पर उपलब्ध होंगे। आवेदन पत्र इन्स्टीट्यूट के रीजनल और ब्रांचों के कार्यालयों में भी उपलब्ध हैं और नकद भुगतान करने पर 06 फरवरी, 2012 से प्राप्त किये जा सकते हैं।

परीक्षा आवेदन पत्र उपयुक्त शुल्क के साथ किसी भी सूचीकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट लगाकर इस प्रकार भेजा जाना चाहिए कि वह अपर सचिव (परीक्षा) के कार्यालय में 29 फरवरी, 2012 तक पहुंच जायें। विद्यार्थी परीक्षाओं के आवेदन पत्र इन्स्टीट्यूट के नई दिल्ली व विकेंद्रित कार्यालयों मुंबई, चैन्नई, कोलकाता, कानपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद, जयपुर व पूना में 29 फरवरी, 2012 के बाद 07 मार्च, 2012 तक 500/- रुपये विलम्ब शुल्क के साथ भी स्वीकार किये जायेंगे। 07 मार्च, 2012 के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। विद्यार्थियों की परीक्षाओं के आवेदन पत्र इन्स्टीट्यूट के नई दिल्ली व विकेंद्रित कार्यालयों मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, कानपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद, जयपुर एवं पूना में 07 मार्च, 2012 तक विलम्ब शुल्क के साथ स्वयं आकर भी दिया जा सकता है। इन नगरों में रहने वाले परीक्षार्थियों को इस सुविधा का फायदा लेने की सलाह दी जाती है।

इन्स्टीट्यूट के सदस्यों की परीक्षा--इन्स्युरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेंट (आई.आर.एम.) परीक्षा के आवेदन पत्र केवल इन्स्टीट्यूट के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में ही जमा कराये जा सकते हैं।

विद्यार्थी परीक्षा के लिये ऑनलाइन आवेदन पत्र भी भर सकते हैं जो कि <http://icaiaexam.icaai.org> पर दिनांक 06 फरवरी, 2012 से 29 फरवरी, 2012 तक भरा जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन करने वाले विद्यार्थी परीक्षा शुल्क अपने क्रेडिट कार्ड वीजा या मास्टर कार्ड द्वारा कर सकते हैं। आवेदन पत्र ऑनलाईन भरने का प्रचार हेतु 500/- रु. के भुगतान नहीं करना पड़ेगा। (अर्थात् अगर आवेदन पत्र ऑनलाईन भरे गये हों तो 500/- रु. आवेदन पत्र शुल्क नहीं लिया जायेगा)। वृत्तिक सक्षमता: परीक्षा, एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा एवं फाइनल परीक्षा के विद्यार्थी से 29 फरवरी, 2012 के बाद 07 मार्च, 2012 तक 500/- रुपये विलम्ब शुल्क के साथ भी स्वीकार किये जायेंगे।

विभिन्न परीक्षाओं के लिये देय परीक्षा शुल्क इस प्रकार है।

वृत्तिक सक्षमता परीक्षा (पी.सी.ई.), एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा (आई.पी.सी.ई.) :--

#### शुल्क

दोनों ग्रुपों के लिये/ईकाई 9 (आई.पी.सी.ई.)	1600/- रुपये
केवल एक ग्रुप के लिये/ईकाई 1 से 8 (आई.पी.सी.ई.)	1000/- रुपये

फाइनल परीक्षा :--

#### शुल्क

दोनों ग्रुपों के लिये	2250/- रुपये
केवल एक ग्रुप के लिये	1250/- रुपये

#### शुल्क

इन्स्युरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेंट (आई.आर.एम.)	1000/- रुपये
--	--------------

दुबई/आबुधाबी/मस्कट केन्द्र से बैठने वाले वृत्तिक सक्षमता (पी.सी.ई.) एकीकृत वृत्तिक सक्षमता (आई.पी.सी.ई.) और फाइनल के परीक्षार्थियों को यू.एस. डॉलर 350 और यू.एम. डॉलर 400 क्रमशः या उसके सममूल्य की भारतीय मुद्रा में परीक्षा शुल्क अदा करना पड़ेगा चाहे वे एक ग्रुप या दोनों ग्रुपों या एक ईकाई में बैठ रहे हों।

काठमांडू केन्द्र में बैठने वाले वृत्तिक सक्षमता (पी.सी.ई.)/एकीकृत वृत्तिक सक्षमता (आई.पी.सी.ई.) और फाइनल के परीक्षार्थियों को भारतीय मुद्रा में रुपये 2250/- और रुपये 3000/- क्रमशः या उसके सममूल्य की विदेशी मुद्रा में परीक्षा शुल्क अदा करना पड़ेगा चाहे वे एक ग्रुप या दोनों ग्रुपों या ईकाई में बैठ रहे हों।

हिन्दी में उत्तर लिखने की एच्छिकता

वृत्तिक सक्षमताएं (पी.सी.ई.) एकीकृत वृत्तिक सक्षमता (आई.पी.सी.ई.) और फाइनल परीक्षाओं के उम्मीदवारों को उत्तर हिन्दी माध्यम से भी देने की सुविधा दी जाती है। विस्तृत जानकारी आवेदन पत्र के साथ संलग्न सूचना पत्र में उपलब्ध है। इन्स्यूरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेंट परीक्षा के उम्मीदवारों को केवल उत्तर अंग्रेजी में ही लिखना है।

जी. सोमाशेखर  
अपर सचिव (परीक्षा)

सालार जंग संग्रहालय

(सांस्कृतिक विभाग)

हैदराबाद,

प्रस्तावित नई धारा\*

सालार जंग संग्रहालय अधिनियम, 1962 की धारा 8(2) को जोड़ी जाने वाली प्रस्तावित नई धारा तथा अधिनियम 8(2), (ख) व (ग) के उद्धरण

अधिनियम 8(2): बोर्ड के अधीन सभी पदों की नियुक्तियां बोर्ड के द्वारा की जाएंगी, यदि श्रेणी I (वरिष्ठ) तथा श्रेणी I (कनिष्ठ) के मामले होने पर कार्यकारी समिति द्वारा, यदि श्रेणी II के मामले हो तो निदेशक, संग्रहालय के द्वारा, यदि श्रेणी III एवं श्रेणी IV के मामले हो तो इन पदों की रिक्तियां चयन समिति के सिफारिश पर की जाती है\*

जोड़ी जाने वाली प्रस्तावित नई धारा :

\*चयन समितियों के सिफारिशों पर सभी श्रेणी III एवं श्रेणी IV पदों के मामलों का कार्यकारी समिति के अनुमोदन से किया जाएगा।

ए. एन. रेड्डी  
निदेशक

## RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400001, the 9th January 2012

DBOD.IBD.No. 10184/23.13.139/2011-12—In pursuance of Clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank namely:—

"Woori Bank"

B. MAHAPATRA  
Executive Director

DBOD.IBD.No. 10193/23.13.085/2011-12—In pursuance of Clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank namely:—

"National Australia Bank"

B. MAHAPATRA  
Executive Director

## THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 2nd January 2012

No. 13-CA (Exam)/M/2012—In pursuance of Regulation 22 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Professional Competence Examination (PCE), Integrated Professional Competence Examination (IPCE) and Final Examination will be held on the dates given below at the following centres provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre.

Similarly Post Qualification Course viz : Insurance and Risk Management (IRM) examination will also be held on the dates given below at the following centres (centres in India only) in terms of provisions as contained in Schedule "G" of the Chartered Accountants Regulations, 1988 respectively, provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre.

## PROFESSIONAL COMPETENCE EXAMINATION (PCE)

[As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 28C(3) of the Chartered Accountants Regulations, 1988]

Group-I :	3rd, 5th & 14th May 2012
Group-II:	8th, 10th & 16th May 2012

(Afternoon Session : 2.00 PM to 5.00 PM) (IST)

## INTEGRATED PROFESSIONAL COMPETENCE EXAMINATION (IPCE)

[As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 28E(3) of the Chartered Accountants Regulations, 1988]

Group-I :	3rd, 5th, 8th & 10th May 2012
Group-II:	12th, 14th & 16th May 2012

(Afternoon Session : 2.00 PM to 5.00 PM) (IST)

## FINAL EXAMINATION

[As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 31(ii) of the Chartered Accountants Regulations, 1988.]

Group-I :	2nd, 4th, 7th & 9th May 2012
Group-II:	11th, 13th, 15th & 17th May 2012

(Afternoon Session : 2.00 PM to 5.00 PM) (IST)

## INSURANCE AND RISK MANAGEMENT (IRM) EXAMINATION

[As per provisions contained in "Schedule G" of Chartered Accountants Regulations, 1988]

Modules I to IV	11th, 13th, 15th & 17th May 2012
-----------------	----------------------------------

(Afternoon Session : 2.00 PM to 5.00 PM) (IST)

## EXAMINATION CENTRES : (FOR ALL EXAMINATIONS) CITIES IN INDIA

1. Agra	34. Cuttack	67. Kolkata	100. Ranchi
2. Ahmedabad	35. Dehradun	68. Kota	101. Ratlam
3. Ahmednagar	36. Delhi/New Delhi	69. Kottayam	102. Rewari
4. Ajmer	37. Dhanbad	70. Kozhikode	103. Rohtak
5. Akola	38. Durg	71. Kumbakonam	104. Rourkela
6. Alappuzha	39. Ernakulam	72. Latur	105. Saharanpur
7. Aligarh	40. Erode	73. Lucknow	106. Salem
8. Allahabad	41. Faridabad	74. Ludhiana	107. Sambalpur
9. Alwar	42. Ghandhidham	75. Madurai	108. Sangli
10. Ambala	43. Ghaziabad	76. Mangalore	109. Satara
11. Amravati	44. Goa	77. Mathura	110. Shimla
12. Amritsar	45. Gorakhpur	78. Meerut	111. Sikar
13. Anand	46. Guntur	79. Moradabad	112. Siliguri
14. Asansol	47. Gurgaon	80. Mumbai	113. Sirsa
15. Aurangabad	48. Guwahati	81. Muzaffarnagar	114. Solapur
16. Bangalore	49. Gwalior	82. Mysore	115. Sonapat
17. Bareilly	50. Hisar	83. Nagpur	116. Sri Ganganagar
18. Bathinda	51. Hubli	84. Nanded	117. Surat
19. Beawar	52. Hyderabad	85. Nashik	118. Thane
20. Belgaum	53. Indore	86. Nellore	119. Thiruvananthapuram
21. Bellary	54. Jabalpur	87. Noida	120. Thrissur
22. Berhampore	55. Jaipur	88. Palghat	121. Tinsukia
23. Bharauch	56. Jalandhar	89. Pali Marwar	122. Tiruchirapalli
24. Bhavnagar	57. Jalgaon	90. Panipat	123. Tirupati
25. Bhilwara	58. Jammu	91. Panvel	124. Tirupur
26. Bhopal	59. Jamnagar	92. Patna	125. Tuticorin
27. Bhubaneswar	60. Jamshedpur	93. Patiala	126. Udaipur
28. Bhuj	61. Jodhpur	94. Pimpri-Chinchwad	127. Udupi
29. Bikaner	62. Kanpur	95. Pondicherry	128. Ujjain
30. Bilaspur	63. Karnal	96. Pune	129. Vadodara
31. Chandigarh	64. Kishangarh*	97. Raipur	130. Vapi
32. Chennai	65. Kollam	98. Rajamahendravaram	131. Varanasi
33. Coimbatore	66. Kolhapur	99. Rajkot	132. Vellore
			133. Vijayawada
			134. Visakhapatnam
			135. Yamuna Nagar

\* Subject to approval of competent authority.

## OVERSEAS CENTRES : (FOR PROFESSIONAL COMPETENCE EXAMINATION (PCE), INTEGRATED PROFESSIONAL COMPETENCE EXAMINATION (IPCE) AND FINAL EXAMINATIONS ONLY)

(1) Abu Dhabi (2) Dubai (3) Kathamandu (4) Muscat\*

\* Subject to necessary clearances etc. from competent authorities.

Payment of fees for the examinations should be made by Demand Draft only. The Demand Drafts may be of any Scheduled Bank and should be drawn in favour of The Secretary, The Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi only.

The Council reserves the right to withdraw any centre at any stage without assigning any reason.

Applications for admission to these examinations are required to be made either on line at <http://icaiexam.icai.org> free of cost (i.e. Rs. 500/- for PCE, IPCE & Final Candidates for the cost of application form shall not be charged if applications are filled in on line) or in the relevant prescribed form, copies of which may be obtained from the Additional Secretary (Examinations), The Institute of Chartered Accountants of India, 'ICAI BHAWAN', Indraprastha Marg, New Delhi-110002 on payment of Rs. 500/- per application form in respect of Professional Competence Examination, Integrated Professional Competence Examination and Final Examination candidates. The cost of Examination application forms for Insurance and Risk Management (IRM) examination is Rs. 100/- per application form. The forms shall also be made available in the Regional and Branch Offices of the Institute and can be obtained therefrom on cash payment on or from 6th February, 2012.

Applications together with the prescribed fee by Demand Draft of any Scheduled Bank may be sent so as to reach the Additional Secretary (Examinations) at New Delhi not later than 29th February, 2012. However, applications will also be received direct by Delhi Office after 29th February, 2012 and upto 7th March, 2012 with late fee of Rs. 500/-. Applications received after 7th March, 2012 shall not be entertained under any circumstances. Applications for the students' examinations only duly filled in will also be received by hand delivery at the office of Institute at New Delhi and at the Decentralised Offices of the Institute at Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur, Delhi, Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad, Jaipur and Pune upto 7th March, 2012. Candidates residing in these cities are advised to take advantage of this facility.

However, application forms duly completed for the Post Qualification Course Examination i.e. Insurance and Risk Management (IRM) will be received only at the New Delhi office of the Institute.

The candidates who fill up the examination application form online at <http://icaiaexam.icaai.org> from 6th February, 2012 to 29th February, 2012 and remit the fee online by using either VISA or MASTER Credit/Debit Card shall not be charged Rs. 500/- in case of PCE, IPCE and Final Examination (i.e. cost of application form fee) in order to popularize filling-in of application form online. The candidates of PCE, IPCE and Final Examinations can continue to fill in application forms online from 1st March, 2012 to 7th March 2012 (during which period late fee of Rs. 500/- will have to be paid by them as well).

The fees payable for the various examinations are as under :

PROFESSIONAL COMPETENCE EXAMINATION (PCE) and INTEGRATED PROFESSIONAL COMPETENCE EXAMINATION (IPCE):

For Both the Groups and Unit-9 of IPCE	Rs. 1600/-
For one of the Groups and Unit 1 to 8 of IPCE	Rs. 1000/-
Overseas Centres	US \$ 350
Nepal Centre	INR 2250/-

#### FINAL EXAMINATION

For Both the Groups	Rs. 2250/-
For one of the Groups	Rs. 1250/-
Overseas Centres	US \$ 400
Nepal Centre	INR 3000/-
Insurance & Risk Management (IRM) Examination	Rs. 1000/-

Candidates of Professional Competence Examination (PCE)/Integrated Professional Competence Examination (IPCE) and Final Examination opting for Dubai/Abu Dhabi/Muscat Centre are required to remit, US\$ 350 and US\$ 400 respectively or its equivalent Indian Currency irrespective of whether the candidates appear in a group or in both the groups or in a unit.

Candidates of Professional Competence Examination (PCE)/Integrated Professional Competence Examination (IPCE) and final Examinations opting for Kathmandu Centre are required to remit Indian Rs. 2250/- and Indian Rs. 3,000/- respectively or its equivalent relevant foreign currency irrespective of whether the candidates appear in a group or in both the groups or in a unit.

#### OPTION TO ANSWER PAPERS IN HINDI :

Candidates of Professional Competence Examination (PCE)/Integrated Professional Competence Examination (IPCE) and Final Examinations will be allowed to opt for Hindi Medium for answering papers. Detailed information will be found printed in the notes for information and guidance of applicants attached to the relevant application form. However the medium of Examination will be only english in respect of Insurance and Risk Management (IRM) Examination.

G. SOMASEKHAR  
Additional Secy. (Exams)

SALARJUNG MUSEUM  
(DEPARTMENT OF CULTURE)

Hyderabad

New Clause Proposed\*

Extract of Regulation 8(2), (b) & (c) & Proposal to add New Clause to 8 (2) of SJM Regulations; 1962

Regulation 8(2) : All the appointments to the posts under the Board shall be made by the Board in the case of Class I (Senior) and Class I (Junior), by the Executive Committee in the case of Class II and by the Director of the Museum in case of Class III and Class IV Posts on the recommendations of the Slection Committee.\*

New Clause Proposal to be added :

\*The recommendations of the Selection Committee(s) in respect of all Class III and IV Posts shall be approved by the Executive Committee.

A. N. REDDY  
Director

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012  
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012